

The Corporate Relationship Department, BSE Limited Ist Floor , New Trading Ring Rotunda Building, P.J. Towers Dalal Street, **Mumbai 400 001** National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza" Bandra-Kurla Complex Bandra (E) **Mumbai 400 051**

Scrip Code-503806

Scrip Code-SRF

SRF/SEC/BSE/NSE

25.07.2020

Dear Sir,

Sub: Newspaper Clippings of Notice of Board Meeting for quarter ended June 30, 2020 - SRF Limited

In Compliance with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please find attached herewith copies of Notice of Board Meeting published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) newspaper. Copies of said advertisement are also available on the website of the Company at www.srf.com

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully, For SRF LIMITED

Rajat Lakhanpal

VP (Corporate Compliance) & Company Secretary

FINANCIAL EXPRESS

For RACL Geartech Limited

Company Secretary & Compliance Officer

Shagun Bajpai

punjab national bank

Transfer of Equity Shares of the Company to investor Education and

Regd. Office: 15" Floor, Eros Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi - 110019
Phones: +91-11-66155129, +91-120-4588500 | Fax No.: +91-120-4588513 **Protection Fund (IEPF)** Shareholders are hereby informed that pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Pursuant to provision of Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board Rules"), the Company is mandated to transfer the Dividend for the Financial Year of Directors of RACL Geartech Limited ("Company") is scheduled to be held through 2012-13, which remained unclaimed for a period of seven years to the IEPF Authority. The Physical/Electronic Mode on Friday, 31st July, 2020, inter alia, to consider and approve the Uncorresponding shares on which dividend was unclaimed for seven consecutive years wil audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter ended 30th also be transferred as per the procedure set out in the Rules.

> concerned shareholders at their registered address whose shares are liable to be transferred to IEPF during the F.Y. 2020-21 for taking appropriate action and the details of such shares liable to be transferred to IEPF are also made available on the website of the Company viz www.dcmsr.com. Shareholders concerned may refer to the website to verify the details of their unencashed dividend and the shares liable to be transferred. Shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company would be issuing duplicate share

In compliance with the Rules, the Company has communicated individually to the

certificate(s) in lieu of the original held by them, to convert it into DEMAT form and transfer The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by 31st August, 2020, the Company with a view to comply with the requirements of the Rules, will transfer the dividend to the IEPF by the due date as per procedure stipulated in the Rules. The corresponding shares on which dividend is unclaimed for seven consecutive years shall also be transferred without any further

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to the IEPF. Shareholders may claim the dividend and corresponding shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, from the IEPF authorities after following the procedure prescribed in the Rules. For any gueries on the above matter, the shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agents, M/s KFIN Technologies Private Limited, Selenium Tower-B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financia District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Telangana – 500032

For DCM Shriram Industries Limited

Place: Delhi Dated: 24.07.2020

DCM (SHRIRAM

Email: einward.ris@kfintech.com; Website: www.kfintech.com.

Y.D. Gupta **Company Secretary**

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड THDC INDIA LIMITED

RACL Geartech Limited

CIN: L34300DL1983PLC016136

E-Mail: info@raclgeartech.com | Website: www.raclgeartech.com

The Notice is available on the website of the company i.e. www.raclgeartech.com and on the website

Further, in accordance with the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015

and the Company's Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading by Insiders, the trading

window has been closed from Wednesday, 1st July, 2020 till 48 hours after the announcement of the

Place: Noida

Date : 24th July, 2020

RACL

shall be released only at our website https://www.pnbindia.in which Chief Manager (9810801268)

of Stock Exchange i.e. www.bseindia.com

aforesaid Un-audited Financial Results of the Company

(ब्रेणी-क मिनी रत्न, सरकारी उपक्रम) (SCHEDULE - A Mini Ratna, Government PSU)

> COOLING TOWERS PACKAGE FOR KHURJA SUPER HERMAL POWER PROJECT (2x660 MW) LOCATED AT VILLAGE DUSHAHARA, TEHSIL KHURJA, DISTT. BULANDSHEHAR, STATE OF UTTAR PRADESH INVITATION FOR BIDS (IFB)/NOTICE INVITING TENDERS (NIT)

(Domestic Competitive Bidding) IFB/NIT Number 2020_THDC_572586 Date: 21.07.2020 Bidding Document no. (if any): THDC/RKSH/CC-9915-397, Name of Package/Work: Cooling Towers Package; Type of Bidding: E-tendering/ Single Stage Two Envelope; Bidding document Download: From 21.07.2020 to 25.08.2020 upto 15:00 hrs (IST); Receipt of Techno-Commercial and Price Bids: 25.08.2020 upto 15:00 hrs (IST); Date and Time of opening of Techno-Commercial Bids: 26.08.2020 at 15:00 hrs (IST).

Date and Time of opening of Price Bids: Shall be intimated separately Contact Details: GM (Corporate Contracts), THDC INDIA LIMITED Pragati Bhawan, By-Pass Road, Pragatipuram, Rishikesh-249 201 Tel: 0135-2431461 /2473229/ 2473482, THDC Website- www.thdc.co.in

Registered Office: Bhagirathi Bhawan, (Top Terrace), Bhagirathipuram, Tehri Garhwal-249 001 CIN: U45203UR1988GOI009822

Website: https://eprocure.gov.in/eprocure/app

NIT/JD/TDR/2020/1 JIRIBAM DIVISION, PWD, MANIPUR Imphal, the 22nd July, 2020

The Executive Engineer, Jiribam Division, PWD, Manipur or behalf of the Governor of Manipur invites item rate tender through open tender from eligible contractos for 6 (Six) nos. of Plan works under MH: 5054 and 2 (Two) nos. of Non- Plan works under MH 3054 (Road works, Culverts, Protection Works etc) costing below 1 (one) Crore of each works within Jiribam Division.

PWD. Manipur. The Tender details and documents shall be available from 03.08.2020 to 07.08.2020 at the office of the Executive Engineer, Jiribam Division, PWD, Manipur, Khoyathong. Bid Submission start date:- 10.08.2020

Bid Submission end date:- 11.08.2020

Date of opening of Bid:- 14.08.2020 (Time 11:00:00 FN) Venue:- Office of the Executive Engineer, Jiribam Division, PWD,

Manipur, Khoyathong.

Executive Engineer, Jiribam Division, PWD, Manipur.

SRF

Registered Office: The Galleria, DLF Mayur Vihar, Unit No. 236 & 237, Second Floor, Mayur Place, Mayur Vihar Phase I Extn, Delhi - 110091 Corporate Office: Block C, Sector - 45. Gurugram - 122003, Tel: +91-124-4354400, Fax No:+91-124-4354500: Email: info@srf.com

2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company equity shares if any.

names appear on the Register of Members and the beneficial owners as per details received from National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited, as on the Record Date i.e. Friday, the August 07, 2020.

www.srf.com and also on the websites of the Stock Exchanges where Company's shares are listed i.e. National Stock Exchange of India Limited – www.nseindia.com & BSE Limited – www.bseindia.com.

for SRF LIMITED

Place: Gurugram Date : July 24, 2020

NIRAJ ISPAT INDUSTRIES LIMITED CIN No. L27106DL1985PLC021811

Regd. Off.: 5140/41/34 CHAUDHARY MARKET GALI PETI WALI, RUI MANDI, SADAR BAZAR, DELHI-110006 Corpoarte Office: 19, G.T. ROAD GHAZIABAD, UTTAR PRADESH- 201002 Email ID: nirajispatindustries@gmail.com, Website: www.nirajispat.in

(Lacs.)

	efer Notes Below)	Ending (31/03/2020) (Audited)	Year Ending (31/03/2020) (Audited)	year (31/03/2019) (Audited)
	Total Income from Operations	137.50	559.22	157.98
2.	(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items*)	17.16	77.15	6.96
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax(after Exceptional and/or Extraordinary items*)	17.16	77.15	6.96
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax(after Exceptional and/or Extraordinary Items)	7.89	52.28	12.90
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income(after tax)]	7.89	52.28	12.90
6.	Equity Share Capital	60.00	60.00	60.00
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year.			
8.	Earning Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)	4 22	0.74	7.45

The impact on net profit/loss, total comprehensive income or any other relevant financial items due to changes in accounting policies shall be disclosed by means of footnote.

Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules/AS Rules, whichever is applicable

NIRAJ ISPAT INDUSTRIES LIMITED

Standalone Statement of Assets and Liabili	ities	(Amount in Lacs.)
Particulars	As at (Current year end) (31/03/2020)	As at (Previous year end) (31/03/2019)
A ASSETS 1. Non-current assets	20101000000	
(a) Propert, Plant and Equipment (b) Capital Work in Progress	205.09	235.96
(c) Goodwill (d) Non-current investments	22.87	22.69
(e) Deferred tax assets (net) (f) Long-term loans and advances		
(e) Other non-current assets Sub-total - Non-current assets	8.05 236.01	10.56 269.21
2 Current assets (a) Inventories (b) Financial Assets	23.88	10.16
Investments Trade receivables Cash and cash equivalents Bank balances other than Cash and	61.08 10.22	97.81 15.13
cash equivalents Loans and advances (c) Other current assets	1,078.80	1,23786
Sub-total - Current assets Total -Assets	1,173.98	1,360.96 1,630.17
B EQUITY AND LIABILITIES 1. Equity		3,22011
(a) Equity Share capital (b) Other Equity Total Equity	60.00 879.22 939.22	6.00 826.94 886.94
Non-current liabilities Long-term borrowings	347.38	630.89

1,409.99 *Applicable in the case of consolidated statement of assets and Liabilities Chief Legal Officer (Corporate & Compliance) (ACS: A15921)

TATA STEEL

CHAMAK HOLDINGS LIMITED THE DELHI STATE Regd. Office: 55-B, Rama Road Indl Area, COOPERATIVE BANK LTD. New Delhi-110015 CIN: L51494DL1984PLC019684 (A SCHEDULED BANK) Email: chamakholdings@gmail.com

NOTICE

This is to bring to your notice that a Meeting of

the Board of Directors of the Company will be

held on 30th July, 2020 at 3:30 P.M at the 3

Porvi Marg, Vasant Vihar, New Delhi-110057.

to inter alia, consider and Approve Audited

Financial Results for the guarter and Financial

Further, pursuant to the SEBI (Prohibition of

Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading

Window for dealing in the securities of the

Company is already closed from 01st April,

2020 till the expiry of 48 hours after the

declaration of Audited Financial Results of the

Company for the quarter and Financial Year

HINDUSTAN EVEREST TOOLS LIMITED

CIN: L74899DL1962PLC003634

Regd. & H.O. 46, Dohil Chambers, 4th

Floor, Nehru Place, New Delhi 110 019

Ph: 91-11-46579476

E-mail: admin@everesttools.com,

Web-site: http://www.everesttools.com

Notice of Rescheduling the Board

Notice is hereby given that pursuant to the

provisions of Regulation 29 read with

regulation 47 and other applicable regulation

of the SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements), Regulations

2015, the meeting of the Board of Directors of

the Company which was earlier decided to

be held on Friday, 24th July, 2020 has been

rescheduled to Friday, July 31, 2020 at the

registered office of the Company inter-alia, to

consider, approve & adopt the Audited

Financial Results along with the Auditor's

Report for the fourth quarter and year ended

31st March, 2020 and any other item of

This intimation is also available on the website of the Stock Exchanges where the

shares of the company are listed at

www.bseindia.com and also on the website

Date: 24th July, 2020 Company Secretary

ALCHEMIST CORPORATION LIMITED

CIN: L74899DL1993PLC055768

Regd. Office: R-4, Unit 103, First Floor, Khirki

Extention Main Road, Malviya Nagar,

New Delhi-110017

info@alchemist-corp.com | 011-29544474

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with

Regulation 47 of the SEBI (Listing obligations

and Disclosure Requirements) Regulation

2015, notice is hereby given that the 02nd

meeting of Board of Directors of the Company

(for the Financial Year 2020-2021) Scheduled

to be held on Wednesday, the 05th day of

August, 2020 at 02.30 P.M. at the Registered

office of the Company situated at R-4, Unit 103

First Floor, Khirki Extention, Main Road

Malviva Nagar, New Delhi-110017, Inter-alia

to consider, approve and take on record of the

Consolidated and Standalone Un-Audited

Financial Results for the guarter ended 30th

June, 2020 and any other matters which are

The trading window for dealing in securities of

the Company by the directors/officers/

designated persons of the company shall

remain closed from 01st July, 2020 to 07th

August, 2020 (both days inclusive) in

compliance with the provisions of SEBI

(Prohibition of Insider Trading) Regulations,

This intimation is also available at the website

of the Company i.e. www.alchemist-corp.com

and the site of Bombay Stock Exchange i.e

www.bseindia.com where the securities of

By Order of the Board

(Company Secretary)

Sd/ **Amol Mathur**

For Alchemist Corporation Limited

Company are listed.

necessary with the permission of the chair.

For Hindustan Everest Tools Limited

Sonam Gupta

of the company i.e. www.everesttools.com.

business as mentioned in agenda.

Place: New Delhi

For Chamak Holdings Limited

Anubhav Kathuria

DIN: 01198916

Managing Director

Yearended on 31th March, 2020.

ended 31st March, 2020

Place: New Delhi

Date: 24.07.2020

Head Office: 31, Netaji Subhash Marg Daryaganj, New Delhi - 110002

CORRIGENDUM Please read 30.06.2020 instead of

17.06.2020 in the Abridged Balance

Sheet & Profit & Loss Account

published in this newspaper on

18.07.2020.

LATENT LIGHT FINANCE LIMITED CIN: L74130DL1984PLC019469 Regd. Office; 120, Local Shopping Centre, Aurbindo Place, Hauz Khas New Delhi - 110016 Phone No:- 011-41074949 Fax No:- 011-41074949

E-mail: galaxycommerciallimited@gmail.com Webiste: Ilfl.in

NOTICE Pursuant to provision of Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulation, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the company is scheduled to be held on Friday 31 July, 2020, inter-alia, to consider and approve, financial

results for the financial year ended

on March 31, 2020 (Audited) and for

the quarter ended on that date and

to discuss any other business with the permission of chair. The copy of this notice is available on the website of the company i.e. www.www.LLFLI.in and on the website of Stock Exchange i.e.

www.bseindia.com. **Latent Light Finance Limited** (Formerly known as **Galaxy Commercial Limited)** Yash Gupta **Company Secretary**

Date: July 24, 2020 Place: New Delhi

Camlin A KOKUYD KOKUYO CAMLIN LIMITED

CIN: L24223MH1946PLC005434 Regd. Office: 48/2, Hilton House, Central Road, MIDC, Andheri (E), Mumbai - 400 093 Tel: 91-022-66557000 Fax: 91-022-28366579 E-mail: investorrelations@

kokuyocamlin.com Website: www.kokuyocamlin.com NOTICE Pursuant to Regulations 29 and

47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company, will be held on Wednesday, the 5th August, 2020 to consider and approve inter-alia, the Unaudited Financial Results for the First quarter ended 30th June, 2020. Further, in line with Regulation 47(2) websites of :

Date: 24th July, 2020

Place: Mumbai

of the aforesaid Regulations, this Notice is also available on the The Company viz. www.kokuyocamlin.com BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com)

FOR KOKUYO CAMLIN LIMITED **RAVINDRA DAMLE** VICE PRESIDENT (CORPORATE)

& COMPANY SECRETARY

DCM SHRIRAM INDUSTRIES LIMITED

CIN:L74899DL1989PLC035140 Regd. Office: 5th Floor, Kanchenjunga Building, 18 Barakhamba Road, New Delhi -110001 Phone No.: 011-43745000, Email: investorservices@dcmsr.com, Website: www.dcmsr.com

INFORMATION REGARDING 29TH ANNUAL GENERAL MEETING The 29th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) on Wednesday, the 2nd September, 2020 at 11.00 AM, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with Circular No.14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 read with Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI (Collectively called "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the e-AGM. Members will be able to

the purpose of quorum u/s 103 of the Companies Act, 2013. 2. In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the stand alone and consolidated financial statements for the financial year 2019-20, along with Board's report, Auditor's report and other documents required to be attached thereto, will be sent to all the members of the Company whose email address are registered with the Company/ Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.dcmsr.com and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited and on the website of Company's Registrars and

attend the e-AGM through VC/ OAVM or view the telecast at https://emeetings.

kfintech.com. Members participating through VC/ OAVM facility shall be reckoned for

karvy.com/public/Downloads.aspx

Manner of registering / updating email addresses: a) Members holding shares in physical mode who have not registered/ updated their email addresses with the Company, are requested to register/ update the same by clicking on https://ris.kfintech.com/email_registration/ or by writing to the Company with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card at investorservices@dcmsr.com or to KFin Technologies Pvt. Ltd. at einward.ris@

kfintech.com. b) Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered/updated their email addresses with their Depository Participants, are requested to register/ update their email addresses with the Depository Participants with whom they

maintain their demat accounts.

Manner of casting vote(s) through e-voting: a) Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in

the Notice of the AGM through electronic voting system ("e-voting") b) The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in

the AGM ("Insta Poll") during Video Conference and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM d) The login credentials for casting votes through e-voting shall be made

which will be mailed in the first week of August, 2020. e) The same login credentials may also be used for attending the AGM through

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through Insta Poll during the e-AGM.

email request at the email id:einward.ris@kfintech.com

O DCM SHRIRAM Place: Delhi Dated: 27.06.2020

financialexp.epapr.in

Transfer Agents, KFin Technologies Pvt. Ltd. ("KFin Tech") at https://evoting.

dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of the AGM which will be mailed in the first week of August, 2020. The details will also be available on the website of the Company at www.dcmsr.com and on the website of KFin Technologies Pvt. Ltd. at https://evoting.karvy.com c) The facility for voting through electronic voting system will also be made available at

available to the members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company/ KFin Technologies Pvt. Ltd./ Depository Participant(s), may generate login credentials by following instructions given in the Notes to Notice of AGM,

VC/OAVM.

For any query members may contact the Company at 011-43745077 (Ashish Jha)/ E-Mail ID: ashishiha@dcmsr.com or Company's Registrar and Transfer Agents, M/s. KFin Technologies Private Limited (formerly known as "Karvy Fintech Private Limited") having their office at Selenium Building, Tower B, Plot Nos. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032. Contact details: Tel: +91 40 6716 2222 or Toll Free No.: 1800-345-4001; or send an

> Y.D. Gupta Company Secretary

By order of Board of Directors

Date: 23.07.2020

PUNJAB NATIONAL BANK invites sealed bids for Renewal of Group

Personal Accident Insurance Policy for Salary / Pension Account Holder Of Defence Personnel from the registered General Insurance

General Services Administration Division

Head Office, Plot No. 4, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

hogad@pnb.co.in; hoinsurance@pnb.co.in

NOTICE FOR SUBMISSION OF BIDS FOR GPA INSURANCE POLICY FOR

SALARY/PENSION ACCOUNT HOLDER OF DEFENCE PERSONNEL

Companies of India. For detailed information please visit our website https://www.pnbindia.in/ Interested General Insurance Companies may submit their bids to the Chief Manager, Punjab National Bank, General Services Administration

Division, Head Office, Plot No.4, Sector-10, Dwarka, New Delhi -110075

Any corrigendum /Extension of date/ clarification in respect of the above

may be visited regularly by the intending bidders. 25.07.2020

on or before 21" Aug 2020 latest by 3:00 PM.

पंजाब नैशनल बैंक

GOVERNMENT OF MANIPUR PUBLIC WORKS DEPARTMENT

The procurement officer is Executive Engineer, Jiribam Division,

2/33/2017-DIPR-(Pt-I)

SRF LIMITED CIN: L18101DL1970PLC005197

Website: www.srf.com NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 42 and 47 & other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, will be held through Video Conferencing on Thursday, 30th July, 2020, inter-alia, to approve the unaudited financial results for the quarter ended 30th June, 2020 and to consider a proposal relating to declaration of 1st interim dividend for financial year 2020-21, on

The interim dividend, if declared, would be paid to members whose

This Information is also available on the Company's website i.e.

VP (Corporate Compliance) & Company Secretary

	rticulars efer Notes Below)	Quarter ending/ Current Year Ending (31/03/2020) (Audited)	Figure/Previous	
1.	Total Income from Operations	137.50	559.22	157.98
2.	(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items*)	17.16	77.15	6.96
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax(after Exceptional and/or Extraordinary items*)	17.16	77.15	6.96
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	7.89	52.28	12.90
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income(after tax)]	7.89		12.90
6.	Equity Share Capital	60.00	60.00	60.00
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous yea		n a	
8.	Earning Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)	1 32	8.71	2.15

The above is an extract of the detailed format of Quarter Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI/Listing and Other Disclosure Requirements

Regulations, 2015. The full format of the Quarter Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity

For Niraj Ispat Industries Limited Name: Haryant Kumar Chaudhary Date: 23.07.2020 Designation: Director DIN: 00021795

CIN No. L27106DL1985PLC021811 Regd. Off.: 5140/41/34 CHAUDHARY MARKET GALI PETI WALI, RUI MANDI, SADAR BAZAR, DELHI-110006 Corpoarte Office: 19, G.T. ROAD GHAZIABAD, UTTAR PRADESH- 201002

20.82 (b) Deferred tax liabilities (net) Other long-term liabilities 368.20 Sub-total - Non-current liabilities Current liabilities (a) Short-term borrowings 68.58 (b) Trade payables Other current liabilities 12.48 (d) Short-term provisions Sub-total - Current liabilities 102.58 TOTAL - EQUITY AND LIABILITIES 1,630.17

DIN: 00021795

Designation: Director

and www.nseindia.com respectively.

Rajat Lakhanpal

For Niraj Ispat Industries Limited Name: Haryant Kumar Chaudhary

TATA STEEL LIMITED Registered Office: Bombay House, 24, Homi Mody Street, E-mail: cosec@tatasteel.com Website: www.tatasteel.com CIN: L27100MH1907PLC000260 PUBLIC NOTICE – 113th ANNUAL GENERAL MEETING This is to inform that in view of the outbreak of COVID-19 pandemic, the 113th Annual General Meeting ('AGM'/'Meeting') of the Members

dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circular'). The 113[™] Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Tata Steel Limited will be held on Thursday, August 20, 2020 at 3:00 p.m. (IST) through VC/OAVM facility provided by National Securities and Depositories Limited ('NSDL') to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM. The e-copy of the Notice of the AGM along with the Integrated Report & Annual Accounts for the Financial Year 2019-20

Members can attend and participate in the AGM **ONLY** through the VC/OAVM facility, the details of which will be provided by the Company in the Notice of the AGM. Accordingly, please note that no provision has been made to attend and participate in the 113th AGM of the Company in person, to ensure compliance with the directives issued by the government authorities with respect to COVID-19 pandemic. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Notice of the AGM along with the Integrated Report will be sent electronically to those Members whose e-mail addresses are

Fort, Mumbai - 400 001, India

Tel.: +91 22 6665 8282

of Tata Steel Limited ('the Company') will be convened through two-way Video Conference ('VC')/Other Audio-Visual Means

('OAVM'), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with General

Circulars No. 14/2020 dated April 8, 2020, No. 17/2020 dated April 13, 2020, No. 20/2020 dated May 5, 2020 issued by the Ministry of

Corporate Affairs ('MCA') (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/1/CIR/P/2020/79

registered with the Company / Registrars & Transfer Agent ('Registrar/RTA') / Depository Participants ('DPs'). As per the SEBI Circular, no physical copies of the 113th AGM Notice and Integrated Report will be sent to any Shareholder. Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to follow the process mentioned below, before 5:00 p.m. (IST) on Thursday, August 13, 2020, for registering their e-mail addresses to receive the Notice of AGM and Integrated Report electronically and to receive login ID and password

Visit the link: https://green.tsrdarashaw.com/green/events/login/ti

I. For Members who hold shares in Electronic form:

Enter your e-mail address and mobile number The system will then confirm the e-mail address for the limited purpose of service of this AGM Notice & Integrated Report

II. For Members who hold shares in Physical form:

Enter the physical Folio Number. PAN details and captcha code

On successful verification, system will allow you to enter your e-mail address and mobile number

Enter your e-mail address and mobile number If PAN details are not available, the system will prompt the Member to upload a self-attested copy of the PAN card The system will then confirm the e-mail address for the purpose of service of this AGM Notice & Integrated Report

csg-unit@tsrdarashaw.com. The Company is pleased to provide remote e-voting facility ('remote e-voting') of NSDL to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company shall also provide the facility of voting through remote e-voting

Members who have not updated their bank account details for receiving the dividend directly in their bank accounts through

Physical Holding Private Limited ('TSR'), (formerly TSR Darashaw Limited) at 6-10, Haji Moosa Patrawala Industrial Estate (Near Famous Studio), 20, Dr. E. Moses Road, Mahalaxmi, Mumbai 400 011, latest by Friday, July 31, 2020. a. a signed request letter mentioning your name, folio number(s), complete address and following details relating to Bank Account in which the dividend is to be received:

iii) 11 digit IFSC Code;

The Members who are unable to receive the dividend directly in their bank account through Electronic Clearing Service or any other means, due to non-registration of the Electronic Bank Mandate, the Company shall dispatch the dividend warrant/Bankers' cheque/demand draft to such Members, upon normalization of postal services and other activities.

> Parvatheesam Kanchinadham Company Secretary &

self-attested copy of the PAN Card; and self-attested copy of any document (such as Aadhaar Card, Driving Licence, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company

PAN, Category as per the IT Act with their DPs or in case shares are held in physical form with the Company / RTA by sending documents through e-mail on or before July 31, 2020. The detailed process of the same is available on the website of the Company at https://www.tatasteel.com/media/12252/nsebse.pdf. **Tata Steel Limited**

21.41 88.98 July 24, 2020

23.34 654.23 50.81 16.76

Members holding shares in demat form are requested to update their Electronic Bank Mandate with their **Demat Holding** respective DPs.

(the 'Integrated Report') of the Company will be available on the website of the Company at www.tatasteel.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Additionally, the Notice of AGM will also be available and may be accessed from the relevant section of the websites of the stock exchanges i.e. BSE Limited ('BSE') and National Stock Exchange of India Limited ('NSE') at www.bseindia.com

Enter the DP ID & Client ID, PAN details and captcha code System will verify the Client ID and PAN details On successful verification, system will allow you to enter your e-mail address and mobile number

Visit the link: https://green.tsrdarashaw.com/green/events/login/ti In the event the PAN details are not available on record, Member to enter one of the share certificate's number System will verify the Folio Number and PAN details or the share certificate number

For permanent registration of the e-mail address, Members holding shares in demat form, are requested to update the same with their DPs and in case the Members are holding shares in physical form, are requested to update the same with the RTA by writing to them at

system during the Meeting. Detailed procedure for remote e-voting before the AGM / during the AGM will be provided in the Notice of the

Electronic Clearing Service or any other means may follow the below instructions to do so: Send hard copies of the following details/documents to the Company's RTA, viz. TSR Darashaw Consultants

> Name and Branch of Bank and Bank Account type; Bank Account Number & Type allotted by your Bank after implementation of Core Banking Solutions; Cancelled cheque in original bearing the name of the Member or first holder, in case shares are held

Pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of the Members w.e.f. April 1, 2020 and the Company is required to deduct tax at source ('TDS') from dividend paid to the Members at prescribed rates in the Income Tax Act, 1961 ('the IT Act'). In general, to enable compliance with TDS requirements, Members are requested to complete and / or update their Residential Status,

New Delhi DCB BANK



एस आर एफ लिमिटेड

सीआईएन: L18101DL1970PLC005197 पंजीकृत कार्यालयः द गैलेरिया, डीएलएफ मयूर विहार, युनिट संख्या 236 व 237, द्वितीय तल, मयुर प्लेस, मयूर विहार फेज 1 एक्सटेंशन, दिल्ली-110091 कॉर्पोरेट कार्यालयः ब्लॉक सी, सेक्टर 45, गुरुग्राम-122003 फोनः +91-124-4354400, फैक्सः +91-124-4354500 ई-मेलः info@srf.com: वेबसाइटः www.srf.com

भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड (सुचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 की नियमावली 29 के साथ पठित नियमावली 42 तथा 47 एवं लागू होने योग्य अन्य प्रावधानों के अनुपालन में एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक बृहस्पतिवार, 30 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, अन्य बातों के अतिरिक्त, 30 जून 2020 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों के अनुमोदन एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु समता अंशों पर प्रथम अंतरिम लामांश की घोषणा से संबंधित प्रस्ताव, यदि हो, पर विचार करने हेतु आयोजित की जाएगी। अंतरिम लाभांश का भूगतान, यदि घोषित होता है तो, उन सदस्यों को किया जाएगा जिनका नाम रिकॉर्ड डेट अर्थात् शुक्रवार, 7 अगस्त 2020 को सदस्यों के रजिस्टर में उपस्थित हो तथा जो नेशनल स्क्यिरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड तथा सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त तिथि को लामभोगी

सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.srf.com एवं एवं स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड www.nseindia.com, एवं बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

> कृते एसआरएफ लिमिटेड हस्ता./-

रजत लखनपाल वीपी (कॉर्पोरेट अनुपालन) एवं कम्पनी सचिव

नीरज इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड CIN: L27106DL1985PLC021811 पंजी. कार्या:: 5140-41/34, चौधरी मार्केट, गली पेटी वाली, रूई मंडी सदर बाजार, दिल्ली-110006 कॉपोरेट कार्यालय: 19, जी.टी. रोड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201002 ई-मेल आईडी: nirajispatindustries@gmail.com, वेबसाईट: www.nirajispat.in,

भाग	1			(रु. लाख में)
	विवरण (नीचे टिप्पणी देखें)	समाप्त तिमाही/ चालू वर्ष (31.03.202 0) (अंकेक्षित)	समाप्त तिथि तक वर्ष/ पूर्व वर्ष के ऑकड़े (31.3.2020) (अंकेक्षित)	पूर्व वर्ष (31.03.2019) में समाप्त तत्स्थानीय 3 महीने (अंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	137.50	559.22	157.98
2.	अवधि के लिये शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व*)	17.16	77.15	6.96
	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद*)		77.15	6.96
4.	कर से बाद अवधि के लिये शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	7.89	52.28	12.90
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	7.89	52.28	12.90
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	60.00	60.00	60.00
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)			
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) 1) मूल 2) तरल	1.32 1.32	8.71 8.71	2.15 2.15
-				

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत

स्थान : गुरुग्राम

तिथि : 24 जुलाई, 2020

स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के सम्पूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज तथा सचीबद्ध सत्ता की वेबसाइटों पर उपलब्ध है। लेखा नीतियों में परिवर्तन के कारण शद्ध लाभ/ हानि, कल व्यापक आय अथवा किसी अन्य संबंधित वित्तीय मदों पर प्रभाव को फुट नोट द्वारा उद्घाटित किया जायेगा।

जो भी लागू हो, इंड-एएस नियमावली/ एएस नियमावली के अनुसार विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों को लाभ तथा हानि के विवरण में समायोजित किया गया है।

नीरज इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिये

नामः हरियंत कुमार चौधरी तिथि: 23.7.2020 पदनामः निदेशक (DIN: 00021795

नीरज इस्पात इंडस्टीज लिमिटेड CIN: L27106DL1985PLC021811 पंजी. कार्या.: 5140-41/34, चौधरी मार्केट, गली पेटी वाली, रूई मंडी सदर बाजार, दिल्ली-110006 कॉर्पोरेट कार्यालय: 19, जी.टी. रोड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201002 ई-मेल आईडी: nirajispatindustries@gmail.com, वेबसाईट: www.nirajispat.in, फोन नं. 011-23551821, 011-64581675 31.3.2020 को परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का विवरण

रिस	म्पत्तियों एवं देयताओं का स्टैंडएलॉन विवरण	(समाप्त चालू वर्ष)	(समाप्त पूर्व वर्ष)
		(31.3.2020) 華	(31.3.2019) में
क.	परिसम्पत्तियाँ		
1.	गैर- चालु परिसम्पत्तियाँ		
क)	सम्पत्ति, प्लान्ट तथा उपकरण	205.09	235.96
ख)	प्रगति में पूंजीगत कार्य	-	-
ग)	गुडविल	-	-
घ)	गैर-चालू निवेश	22.87	22.69
	आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (निवल)	-	-
च)	दीर्घ-कालिक ऋण तथा अग्रिम	-	-
छ)	अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ	8.05	10.56
	उप योग-गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ	236.01	269.21
2.	चालु परिसम्पत्तियाँ		
	इन्दोन्टरीज	23.88	10.16
	वित्तीय परिसम्पत्तियाँ		
	निवेश	61.08	97.81
	ट्रेड रिसीवैबल्स	10.22	15.13
	नगद एवं नगद के समान		
	नगद तथा नगद के समान के अतिरिक्त		
	बैंक में शेष	_	-
	ऋणों एवं अग्रिमों	-	-
ग)	अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	1078.80	1237.86
	उप-योग— चालू परिसम्पत्तियाँ	1173.98	1360.96
	कुल-परिसम्पत्तियाँ	1409.99	1630.17
ख.	इक्विटी एवं देयताएं		
1.	इक्विटी		
क)	इक्विटी शेयर पूंजी	60.00	6.00
ख)	अन्य इक्विटी	879.22	826.94
	कुल इक्विटी	939.22	886.94
2.	गैर-चालू देयताएँ		
क)	दीर्घ-कालिक उधार	347.38	630.89
ख)	आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	20.82	23.34
ग)	अन्य दीर्घ कालिक देयताएं	-	-
घ)	दीर्घ-कालिक प्रॉविजन्स	-	-
	उप-योग— गैर चालू देयताएं	368.20	654.23
5.	चालू देयताएं		
क)	संक्षिप्त कालिक उधार	-	-
ख)	ट्रेड पेयेबल्स	68.58	50.81
ग)	अन्य चालू देयताएं	12.48	16.76
घ)	संक्षिप्त कालिक प्रॉविजन्स	21.52	21.41
	उप-योग— चालू देयताएं	102.58	88.98
	कुल-इक्किटी तथा देयताएं	1409.99	1630.17

परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के समेकित विवरण के मामले में लाग

नीरज इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिये नामः हरियंत कमार चौधरी पदनामः निदेशक DIN: 00021795

(गणि लाखों में

कब्जा सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत डीसीबी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना उक्त अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी कर कॉलम सं. 3 में वर्णित ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों को सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त मांग सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक तथा सह-ऋणधारक कॉलम नं. 6 में वर्णित राशि के वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली को नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे कॉलम नं. 4 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

क्रम	ऋण खाता	ऋणधारक/सह-ऋणधारक	माग सूचना	माग को गई
सं.			तिथि	राशि
H	DRBLDEL00468820	दीपक कुमार खन्ना/ड्रीम कम्फोर्ट्स/अंजना	11.07.2019	₹.
		खन्ना/तरुण खन्ना/अपूर्व खन्ना		94,60,160.38/-

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरणः फ्लैट नं. 1005, 10वाँ एवं 11 वाँ तल, टावर फेर्रारा, महागुण मेंशन फेज 1 प्लॉट नं. 1/5, वैभव खंड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय ऊपर वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज एवं लागत के लिये डीसीबी बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

तिथि: 24.07.2020 प्राधिकृत अधिकारी स्थानः गाजियाबाद डीसीबी बैंक लिमिटेड

> RITA FINANCE AND LEASING LIMITED (Formerly Known as Rita Holdings limited)

Regd. Office: 324A, Illrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 Phone: 9810260127, Email ID: ritaholdingsltd@gmail.com Website: www.ritaholdings..in, CIN: L67120DL1981PLC011741

ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of the members of M/s Rita Finance and Leasing Limited (Formerly known as Rita Holdings Limited) ("the Company") will be held on Wednesday, August 19, 2020 at 04: 00 P.M at 324A, Illrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 ("the Meeting").

The Notice convening the Meeting has been sent to the members to their registered address by courier and electronically to those members who have registered their e-mail address with the Depositories/Company as on the cut-off date i:e July 21, 2020, and completion of physical dispatch on dated July 24, 2020. Notice is available on the website of the Company

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the Meeting by electronic means ("e-voting"). The communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID and password, along with a copy of the Notice convening the Meeting, has been dispatched to the members. The format of communication for e-voting is available on the website of the Company: www.ritaholdings.in and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com.

The remote e-voting facility shall commence on Sunday, 16th August, 2020 from 9:00 a.m. and end on Tuesday 18th August, 2020 at 5:00 p.m. The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time.

A person, whose name appears in the Register of Members/ Beneficial Owners as on the cutoff date (Record date), i.e., Wednesday 12th August, 2020 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting /voting at the Meeting.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of the cut-off date may obtain the User ID and password inter alia by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the Meeting which is available on Company's website and NSDL's website. If the members already registered with NSDL for e-voting, he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting. Member who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast the vote(s) again.

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and applicable rules there under that the Company has fixed Wednesday 12th August, 2020 as the "Record Date" for the purpose of determining the members eligible to vote at the Annual General Meeting. For and on behalf of Board

Rita Finance and leasing Limited (Formerly known as Rita Holdings Limited) Pawan Kumar Mittal

Date: 24.07.2020 DIN: 00749265 Place: New Delhi

DCM SHRIRAM INDUSTRIES LIMITED CIN:L74899DL1989PLC035140

Read. Office: 5th Floor, Kancheniunga Building.

18 Barakhamba Road, New Delhi -110001 Phone No.: 011-43745000, Email: investorservices@dcmsr.com, Website: www.dcmsr.com NOTICE

Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and **Protection Fund (IEPF)**

Shareholders are hereby informed that pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), the Company is mandated to transfer the Dividend for the Financial Year 2012-13, which remained unclaimed for a period of seven years to the IEPF Authority. The corresponding shares on which dividend was unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the Rules. In compliance with the Rules, the Company has communicated individually to the

concerned shareholders at their registered address whose shares are liable to be transferred to IEPF during the F.Y. 2020-21 for taking appropriate action and the details of such shares liable to be transferred to IEPF are also made available on the website of the Company viz www.dcmsr.com. Shareholders concerned may refer to the website to verify the details of their unencashed dividend and the shares liable to be transferred. Shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company would be issuing duplicate share

in favour of IEPF. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of

certificate(s) in lieu of the original held by them, to convert it into DEMAT form and transfer

the duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by 31st August, 2020, the Company with a view to comply with the

requirements of the Rules, will transfer the dividend to the IEPF by the due date as per procedure stipulated in the Rules. The corresponding shares on which dividend is unclaimed for seven consecutive years shall also be transferred without any further Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend

amount and shares transferred to the IEPF. Shareholders may claim the dividend and corresponding shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares. if any, from the IEPF authorities after following the procedure prescribed in the Rules. For any queries on the above matter, the shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agents, M/s KFIN Technologies Private Limited, Selenium Tower-B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financial

District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Telangana - 500032. Email: einward.ris@kfintech.com; Website: www.kfintech.com. For **DCM Shriram Industries Limited**

Place: Delhi Dated: 24.07.2020



Y.D. Gupta Company Secretary

महाराष्ट्र के एक गांव में पहली बार पहुंची बिजली, लोगों ने मनाई दिवाली



(सिडकुल और कॉनकॉर का संयुक्त उद्यम) कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि0, उत्तर मध्य क्षेत्र, दूसरी मंजिल, एनएसआईसी न्यू एमडीबीपी बिल्डिंग, ओखला इंडरिट्रयल एस्टेट, नई दिल्ली —110020 फोन न0 011—41222900 और 011—41222901

ई-निविदा सूचना रुससीआईसीएल, एमएमएलपी / पंतनगर, जिला–उघम सिंह नगर (उत्तराखंड), कार्यालय

के प्रयोग हेत तीन वाणिज्यिक वाहनों को मासिक किराये के आधार पर ठेके पर लेने के लिए द्वि-बोली प्रणाली के तहत खुली ई-निविदा आमंत्रित करता है। वेबसाइट www.tenderwizard.com/CCIL पर निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 14-08-2020, 17:00 बजे तक है। विस्तृत जानकारी के लिए तथा किसी भी शुद्धिपत्र के लिए कृपया www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉग ऑन करें। मुख्य महाप्रबंधक / एनसीआर

NOTICE FOR SALE OF ASSETS -LML LML LIMITED (In Liquidation) (Sale under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)

ocation	Asset / Area	Block No.	Reserve Price (Rs. Crore)
Kanpur	Land & Building at C-10, Site-II & A-1, Site-III, Panki Industrial Area, Kanpur, UP (Area 67.56 acres)	1	231.00
Kanpur	Land & Building at C-10, Site-II, Panki Industrial Area, Kanpur, UP (Area 15.21 acres)	2	52.00
Kanpur	Land & Building at A-1, Site-III, Panki Industrial Area, Kanpur, UP (Area 52.35 acres)	3	179.00

Last Date to apply: Monday, August 10, 2020, Date of E-Auction: Tuesday, August 11, 2020 For Details: Visit www.lmlworld.in and https://ncltauction.auctiontiger.net Contact: CA. Anil Bhatia, Tel No. 011-41066313, Mob. No.: +91 9899224476 Email id: lml.auction@gmail.com

Place: New Delhi Date: 25.07.2020

Arun Gupta, Liquidator IBBI Reg. No: IBBI/IPA-002/IP-N00051/2016-17/10095 Regd. Address: A-57, Sector 30, Noida-201301, UP, India Regd. Email: arungupta2211@gmail.com



ARYAMAN FINANCIAL SERVICES LIMITED CIN: L74899DL1994PLC059009

Regd Office: 102, Ganga Chambers, 6A/1, W.E.A., Karol Bagh, New Delhi - 110 005 Corporate Office: 60, Khatau Building, Gr. Floor, Alkesh Dinesh Modi Marg, Opp. P.J. Tower (BSE Bldg.), Fort, Mumbai – 400-001. Tel.: 022-6216 6999 | Fax: 022 - 22630434

> Email: info@afsl.co.in | Website: www.afsl.co.in NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 read with Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, July 31, 2020 at 10.30 A.M. at Corporate Office of the Company at 60, Khatau Building, Ground Floor, Alkesh Dinesh Modi Marg, Opp. P. J. Tower (BSE Bldg.), Fort, Mumbai – 400 001, inter-alia to discuss and approve Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the guarter and year ending March 31, 2020.

Further, in terms of the Code of Conduct of Company adopted under SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 the trading window for dealing in the securities of the Company is already closed and shall open 48 hours after conclusion of the Board Meeting The said Notice is available on the website of BSE Limited and on Company's

website (http://www.afsl.co.in/investor-relation.html). For and on behalf of Aryaman Financial Services Limited

Chaitali Pansari Place: Mumbai

Date: 24.07.2020

Director

(Company Secretary)

फार्म जी - अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण कॉम्पलैक्स. सैनी एन्कलेव, दिल्ली– 110092 कार्यालय (यदि कोई हो) का पता तथा अन्य पावधानों के अनसार आईबीबीआई की वेबसा attps://ibbi.gov.in/ legal-framework/ act पर उपलब्ध। कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(5)(क) के विषय में देवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29 के अंतर्गत नान- डिस्क्लोज अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं उन्हें ईमेल द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। डाक/करियर/हाथों-हाथ द्वारा तथा इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति में vijaykumargu ta.ip@gmail.com पर उसे ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है।

करने की अनमानित तिथि नई दिल्ली-110001, ईमेलः vkgupta2004@vahoo.co.ir बाराखम्बा रोड. कनॉट प्लेस. नई दिल्ली−110001 पता तथा ईमेल

14 जुलाई, 2020 को आयोजित कॉर्पोरेट ऋणधारक ''मैं. वाल रॉक इन्फ्राहोम प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों की समिति की 3न बैठक के अनुसार सीओसी के सदस्यों ने दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 12 के अनुसार 180 दिनों की अवधि वे बाद सीआईआरपी की अवधि में विस्तार से संबंधित माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली पीठ की स्वीकृति के अधीन प्रपत्र–जी में अभिरुचि की अभिव्यक्ति फिर से जारी करने का फैसला किया है। विजय कुमार गुप्ता (प्रस्ताव कर्मी)

पंजी. सं. IBBI/IPA-001/IP-P00262/2017-18/10500 पता: 408. नई दिल्ली हाउस. 27. बाराखम्बा रोड. कनॉट प्लेस. नई दिल्ली-110001

तिथि: 25.07.2020

स्थानः नई दिल्ली

अकोला, २४ जुलाई (भाषा)।

महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक आदिवासी गांव नवी तलाई के निवासी ख़ुशी से झूम उठे, जब दो दिन पहले उनके घरों में पहली बार बिजली आई। इससे पहले वे अमरावती जिले में मेलघाट बाघ परियोजना के मुख्य क्षेत्र में रहते थे और 2018 में उन्हें स्थानांतरित कर नवी तलाई में बसाया गया था।

हालांकि, तलहरा तालुका अंतर्गत गांव में रहने वाले 540 लोग पूर्नवास के समय से ही बिजली से वंचित थे। निवासियों को अपने मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए भी पड़ोसी गांव के लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था। उनके घरों का अंधकार 22 जुलाई को समाप्त हुआ, जब नवी तलाई में पहली बार बिजली पहुंची।

महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) के एक अधिकारी ने कहा कि गांव तक बिजली पहुंचाना उसका दायित्व था। अधिकारी ने कहा कि एमएसईडीसीएल मिशन मोड में काम करती है। अब गांव में सभी घरों तक बिजली पहुंच चुकी है। यह एमएसईडीसीएल का दायित्व है। नवी तलाई गांव के निवासियों के लिए यह अवसर समय से पहले आई दिवाली की तरह था। उन्होंने इसका स्वागत दीये जला कर और बच्चों ने केक काटकर किया। गांव में बिजली पहंचाने के लिए जमीनी कार्य सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल कोल्हे और विधान परिषद सदस्य अमोल मितकारी ने किया।

घर में गणपति स्थापना और विसर्जन पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक

मुंबई, 24 जुलाई (भाषा)।

कोविड-19 के मद्देनजर बृहन्नमुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने कहा कि गणपति उत्सव के दौरान घरों में गणपति की स्थापना और उनके विसर्जन कार्यक्रम में केवल पांच लोग ही शामिल हो सकते हैं। कोविड-19 के प्रसार पर नियंत्रण में जुटी बीएमसी ने त्योहार से पूर्व बृहस्पतिवार को लोगों से यह विशेष आग्रह किया। इस साल यह उत्सव 22 अगस्त से शुरू होगा।

दस दिवसीय गणेश उत्सव के दौरान पंडालों के अलावा हजारों लोग अपने घरों में भी अलग-अलग दिन गणपित की स्थापना करते हैं। यह महाराष्ट का सबसे लोकप्रिय धार्मिक त्योहार है। नगर निकाय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में लोगों से अपील करते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ महामारी अधिनियम 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और भादंवि की संबंधित धाराओं के तहत कडी कार्रवाई की जाएगी। बीएमसी ने लोगों से उत्सव के दौरान मास्क या शिल्ड पहनने, सामाजिक दूरी के नियम पर अमल सहित सभी सुरक्षात्मक नियमों का पालन करने को भी कहा। साथ ही लोगों से बड़े जुलुसों में शामिल ना होने की अपील भी की है।

ठाणे में संक्रमण

के नए मामले

महाराष्ट के ठाणे जिले में

कोविड-19 मरीजों की बढती संख्या

के बीच प्राधिकारियों ने शुक्रवार को

कहा कि संक्रमण के नए मामले

झिंगयों में नहीं, बल्कि आवासीय

बहरपतिवार को ठाणे जिले में

संक्रमण के 1,718 मामले सामने

आए, जिसके बाद कुल मामलों

की संख्या बढ़कर 73,922 हो

गई। उन्होंने कहा कि कोविड-19

से मरने वाले मरीजों की संख्या

बढ़कर 2,053

हो गई है। ठाणे

माहानागर

पालिका के

आयुक्त डॉ

विपिन शर्मा ने

कोविड-19 के

इंग्गाी -

झोपड़ियों की

बजाय अब

बड़े आवासीय

सामने आ रहे

हैं और ऐसा

उन्होंने कहा

आदासिग

अधिक ध्यान

केंद्रित करना

होगा और उन

प्रतिबंध लगाने

उन्हों नो

आगासीय

रिकॉर्ड रखना होगा। उन्होंने कहा कि जिले

कोविड-19 के 17,389 मामले सामने आ चुके

बुहस्पतिवार को कोविड-

मरीजों की मौत

के नौ

जिसके

होंगे।

कहा

इमारतों

परिसरों

नहीं

गया।

हमें

पर

परिसर

पहले

देखा

कि

कहा

कि

मामले

एक अधिकारी ने कहा कि

परिसरों में सामने आ रहे हैं।

ढाणे, २४ जुलाई (भाषा)।

P#D/MED

पॉलि मेडिक्योर लिमिटेड **पंजी. कार्या.:** 232-बी. तृतीय तल. ओखला

इंडस्टियल एस्टेट, फेज-III, नई दिल्ली-110020 सीआईएन: L40300DL1996PLC066923 फोन: 011-33550700. फैक्स: 011-26321894 इमेलः investorcare@polymedicure.com वेबसाइटः www.polymedicure.com

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय प्रतिभृति और विनियम बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन

आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार, 30 जुलाई, 2020 को अन्य बातों के साथ आयोजित की जाएगी सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं 2015 के विनियम 33 के अनुसरण में, 30 जन

2020 को समाप्त तिमाही के लिए सीमित

समीक्षा रिपॉट के साथ स्टैन्डलोन और

कंसोलिडेटेड अनंकेक्षित IND-AS अनुपालन वितीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन किसी भी अन्य मामलों को संचालित करने के लिए जो बोर्ड उपयुक्त समझ सकता है। कृते पाँति मेडिक्योर लिमिटेड

अविनाश चंद्रा स्थानः नई दिल्ली विधि: 24.07.2020 कंपनी सचिव

प्रपत्र सं. आईएनसी-26 [कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] समक्ष : केन्द्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 की उप-धारा (4) के साथ पठित

जेएचएस स्वेन्डगार्ड ब्राण्ड्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी−1 / ई−23, मोहन कोआपरेटिव इंडस्टियल एरिया, मधुरा रोड, नई दिल्ली− 110044 में स्थित है, के विषय में एतदहारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी हारा इसका पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के संबंध में 09 जुलाई, 2020 को आयोजित इसकी असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों के अनुसार कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन की पृष्टि

की याचना हेत् कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन एक आर्वेदन

केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित संशोधन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां निवेशक शिकायत ग्रपत्र भरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सपदं कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंजित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को इस सुचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर सुपूर्व करवा सकता है अथवा पंजीकत डाक से भेज सकता है, जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को बी-1/ई-23, मोहन कोआपरेटिव इंडस्ट्रियल एरिया, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044 स्थित पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए

जेएचएस स्वेन्डगार्ड ब्राण्ड्स लिमिटेड हस्ता./-छवि लाल प्रसाद निदेशक ढीआईएन : 01286188

कोनः 011-26900411/12, ईमेल आईडी : csbrand@svendgaard.com फैक्सः 26900434

SHREE WORSTEX LIMITED

Regd. Off: 325, Illrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi - 110085 M. No.: 9315202833, Email ID: shreeworstex@gmail.com, info@shreeworstex.in, Website: www.shreeeworstex.in, CIN: L17111DL1982PLC013790

तिथि : 24-07-2020

Extracts of the Standalone Unaudited Financial Results For the Quarter ended June 30, 2020

SI.	Particulars	Quarter Ending	Year to date Figures	Correspond ing 3 month ended in the previous yes
		30.06.2020 (Unaudited)	30.06.2020 (Unaudited)	30.06.2019 (Unaudited)
1.	Total income from operations	7.85	7.85	4.86
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	11.67	11.67	(9.21)
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	11.67	11.67	(9.21)
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	8.63	8.63	(9.21)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	83.05	83.05	12.90
6.	Equity Share Capital	314.00	314.00	314.00
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	99.81	99.81	64.93
8.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic : 2. Diluted :	0.27 0.27	0.27 0.27	(0.29) (0.29)

The Standalone unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2020 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on July 24, 2020. The Standalone unaudited Quarterly Financial Results along with Statement of Assets and Liabilities have been subjected to Auditors' Report pursuant to the Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 received from the Statutory Auditors of the company. The above is an extract of the detailed format of Quarterly unaudited Financial Results filed with the

Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015. The full format of the unaudited Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange(s) website i.e. Metropolitan Stock Exchange of India Limited (www.msei.in), BSE Limited (www.bseindia.com) and Website of the Company i.e. (www.shreeworstex.in). For and on behalf of the Board of Directors

Pawan Kumar Mittal Director DIN: 00749265

NEW LIGHT APPARELS LIMITED

तिथि: 23.07.2020

Registered Office: GC-29, Basement, Shivaji Enclave, Raja Garden, New Delhi-110027 Landline: (91)-11-45613885 • CIN: L74899DL1995PLC064005 Website: http://www.newlightapparels.com • E-Mail: newlight.apparels@gmail.com

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER AND YEAR ENDED 3157 MARCH, 202

	8		(Rs.	in thousand
		Year Ende		
Particulars	31.03.2020 (Audited)	31.12.2019 (Unaudited)	31.03.2019 (Audited)	31.03.2020 (Audited)
Total Income from Operations	15682.36	38616.07	47084.18	121692.2
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(400.98)	206.94	751.75	249.5
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(400.98)	206.94	751.75	249.5
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(228.61)	74.14	574.43	182.5
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(228.61)	74.14	574.43	182.5
Equity Share Capital	21962.30	21962.30	21962.30	21962.3
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)- Basic : Diluted:	(0.10) (0.10)	0.03 0.03	0.26 0.26	0.0

and year ended 31" March, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the fourth quarter and year ended 31" March, 2020 is available on the Stock Exchanges' website (www.bseindia.com) and Company's website (www.newlightapparels.com).) The above Audited Standalone Financial Results for the fourth quarter and year ended 31" March, 2020 have

24" July, 2020. The Company has adopted Indian Accounting Standards (IND AS) prescribed under the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder, with effect from April 1, 2017 and accordingly these financial results have been prepared in accordance with Ind-AS notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendments) Rules, 2016.

been reviewed by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors in its meeting held on

NEW LIGHT APPARELS LIMITED SANDEEP MAKKAD MANAGING DIRECTOR

For and on behalf of Board Of

DIN: 01112423

Place: New Delhi

Date: 24" July, 2020

NEW LIGHT APPARELS LIMITED EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR

Registered Office: GC-29, Basement, Shivaji Enclave, Raja Garden, New Delhi-110027 Landline: (91)-11-45613885 • CIN: L74899DL1995PLC064005 Website: http://www.newlightapparels.com • E-Mail: newlight.apparels@gmail.com

			(Rs.	in thousands
	(Year Ended		
Particulars	30.06.2020 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)	30.06.2019 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)
Total Income from Operations	3944.88	15682.36	36270.52	121692.23
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(1871.53)	(400.98)	429.37	249.5
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1871.53)	(400.98)	429.37	249.5
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1403.65)	(228.61)	318.81	182.5
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(1403.65)	(228.61)	318.81	182.51
Equity Share Capital	21962.30	21962.30	21962.30	21962.30
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)- Basic : Diluted:	(0.64) (0.64)	(0.10) (0.10)	0.15 0.15	0.08

ended June 30, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the guarter ended June 30, 2019 is available on the Stock Exchanges' website (www.bseindia.com) and Company's website The above unaudited standalone financial results for the first quarter ended on June 30, 2020 have been

24" July, 2020. The Company has adopted Indian Accounting Standards (IND AS) prescribed under the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder, with effect from April 1, 2017 and accordingly these financial results have been prepared in accordance with Ind-AS notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendments) Rules, 2016.

reviewed by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors in its meeting held on

SANDEEP MAKKAD MANAGING DIRECTOR DIN: 01112423

For and on behalf of Board Of **NEW LIGHT APPARELS LIMITED**

Place: New Delhi

Date: 24.07.2020

Shree Worstex Limited

Place: New Delhi

Date: 24* July, 2020

संक्रमण के 16,859 मामले सामने आ चुके

www.readwhere.com

बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 281 हो गई। अधिकारी

कहा कि ठाणे शहर में